

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, पूर्व प्रीमियर और ब्रैम्पटन के निवासी बिल डेविस के जीवन का जशन मना रही है

श्रद्धांजलि पुस्तक, ब्रैम्पटन सिटी हॉल में उपलब्ध है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (12 अगस्त, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, 8 अगस्त, 2021 को, माननीय विलियम (बिल) ग्रेनविल डेविस पी.सी. सी.सी. ओ.ओ.एन.टी. क्यू.सी. (William (Bill) Grenville Davis PC, CC, OOnt, QC), जिन्हें लोकल तौर पर प्यार से “ब्रैम्पटन बिली” (“Brampton Billy”) कहा जाता है, की मौत के शोक में देश से जुड़ी। उन्होंने 1971 से 1985 तक 18वें प्रीमियर ऑफ ओनटैरियो के तौर पर प्रांत को सेवा दी। इससे पहले, श्रीमान डेविस ने पील (Peel) ('59-'67), पील नॉर्थ (Peel North) ('67-'75) और ब्रैम्पटन ('75-'85) की राइडिंग्स के लिए एम.पी.पी. (MPP) के तौर पर सेवा दी थी।

8 अगस्त को, सिटी ने प्रीमियर डेविस की याद में सभी फैसिलिटीज में झंडे आधे झुका दिए और ब्रैम्पटन सिटी हॉल (City Hall) के क्लॉक टावर (Clock Tower) की लाइटें मंद कर दीं। जो लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि पुस्तक, 27 अगस्त तक, कार्यदिवस के कार्य समय, सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक, सिटी हॉल के आगे के दरवाजों पर उपलब्ध रहेगी।

कल सिटी काउंसिल (City Council) की अपनी नियमित मीटिंग में, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल के मेम्बर्स ने मौन धारण किया और श्रीमान डेविस के द्वारा ब्रैम्पटन और पूरे प्रांत तथा देश की जनता के जीवन में किए खास योगदानों की यादें साझा कीं। जुलाई के शुरु में, सिटी काउंसिल ने ब्रैम्पटन के पूर्व मेयर पीटर रॉबर्टसन (Peter Robertson) के द्वारा किए निवेदन को मंजूरी दी थी, जिसमें पूर्व प्रीमियर डेविस के सम्मान में शहर के अंदर एक स्मारक बनाने के लिए 100,000 डॉलर देने की प्रतिबद्धता देती है।

नवंबर 2019 में, श्रीमान डेविस को मेयर पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown) के द्वारा ब्रैम्पटन का “सिटी का चाबी सम्मान” (Key to the City) मिला था। “सिटी का चाबी सम्मान” एक प्रतीकात्मक सम्मान है, जो म्युनिसिपल्टी, क्म्युनिटी के किसी बहुत बहुमूल्य मेम्बर को, या सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के किसी प्रसिद्ध या सम्मानित को देती है, जिसने ब्रैम्पटन के निवासियों की ज़िंदगियों को प्रभावित किया हो।

सितम्बर 2021 में, उनके जीवन पर पब्लिक जशन के साथ एक निजी अंतिम संस्कार का आयोजन किया जाएगा। परिवार के साथ सलाह-मशविरे के साथ, 61 मेन स्ट्रीट साउथ, ब्रैम्पटन, ओनटैरियो L6Y 1M9 (61 Main St. S, Brampton, ON L6Y 1M9) में, कैथी डेविस (Kathy Davis) को फूल भेजे जा सकते हैं। निवासी प्रीमियर डेविस के सम्मान में अपनी मर्जी से चैरिटी में दान भी कर सकते हैं।

शोक संदेश

- [विलियम ग्रेनविल डेविस शोक-संदेश – ब्रैम्पटन, ओनटैरियो | वार्ड फ्यूनरल होम्स \(William Grenville Davis Obituary - Brampton, ON | Ward Funeral Homes\)](#)

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](#) पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca